



## Indag Rubber Limited

**Regd. Office:** Khemka House, 11, Community Centre, Saket, New Delhi -110017, India  
**Phone:** 26963172-73, 26961211, 26863310, 41664818, 41664043; **Fax:** 011-26856350  
**E-mail:** info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com; **CIN-L74899DL1978PLC009038**



**Works:** Village Jhiriwala, Tehsil, Nalagarh, Distt. Solan, Himachal Pradesh - 174101, India  
**Phone:** +91-9736000123

**ISO 9001: 2015**  
**ISO 14001:2015**

November 15, 2024

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001.

**(Company code-1321)**  
**(Scrip code-509162)**

**Subject: Extract of Newspaper advertisement for Publication of Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith extract of audited financial results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2024, published in the **Mint Newspaper (English) and Jansatta Newspaper (Hindi) on November 15, 2024**, both newspapers having electronic editions as well.

These results were approved by the Board of Directors in their meeting held on November 14, 2024.

This is for your information and records please.

Thanking you,  
Yours faithfully  
**For Indag Rubber Limited**

Sonal Garg  
Company Secretary & Compliance Officer





# Vaz, Mani and Gupta to head RIL-Disney JV

The ₹70,000-cr media giant is likely to transform entertainment in India

Lata Jha & Gaurav Laghate  
MUMBAI & NEW DELHI

**M**ukesh Ambani's Reliance Industries Ltd (RIL) and The Walt Disney Co. announced on Thursday that they have completed the merger of their media arms.

The new joint venture (JV) will be spearheaded by three chief executives: Kevin Vaz will head the entertainment organization across platforms; Kiran Mani will take charge of the combined digital organization; and Sanjog Gupta will lead the combined sports organization.

The JV, or merger of Viacom18 Media Pvt. Ltd's media and JioCinema businesses into Star India Pvt. Ltd, has become effective, with RIL investing ₹11,500 crore in the JV for its growth, the two companies said in a statement. The JV has allotted shares to Viacom18 and RIL as consideration for the assets and cash, respectively.


The transaction values the new entity at ₹70,352 crore on a post-money basis, excluding synergies. At the closing of the transactions, the Reliance-controlled JV was owned by RIL at 16.34%, Viacom18 at 46.82%, and Disney at 36.84%. Nita M. Ambani will serve as the JV's chairperson, with Uday Shankar as vice chairperson offering strategic guidance.

In a separate transaction, RIL bought Paramount Global's 13.01% stake in Viacom18 for ₹4,286 crore. As a result, Viacom18 is owned 70.49% by RIL, 13.54% by Network18 Media & Investments Ltd, and 15.97% by Bodhi Tree Systems on a fully diluted basis.

The statement said the joint entity that would result in the combination of networks such as Star and Colors on the television front and JioCinema and Hotstar on the digital front will make for one of the largest media and entertainment companies in the country, with *pro forma* com-



Nita Ambani will serve as the joint venture's chairperson, while Uday Shankar will be the vice chairperson offering strategic guidance.



MINT

combined revenue of approximately ₹26,000 crore for the year ended March.

The JV operates over 100 TV channels and annually produces over 30,000 hours of TV entertainment content. The JioCinema and Hotstar digital platforms have an aggregate subscription base of over 50 million. The JV holds a portfolio of sports rights across cricket, football, and other sports.

"With the formation of this JV, the Indian media and entertainment industry is entering a transformational era. Our deep creative expertise and relationship with Disney, along with our unmatched understanding of the Indian consumer, will ensure unparalleled content choices at affordable prices for Indian viewers," Mukesh Ambani, chairman and managing director of RIL, said in the statement.

The CCI approved the transaction on 27 August, subject to compliance with certain voluntary modifications offered by the parties. The companies said that in addition to the CCI, anti-trust authorities in the European Union, China, Turkey,

South Korea, and Ukraine have approved the transaction.

"This is an exciting moment for our two companies, as well as for India's consumers, as we create one of the top entertainment entities in the country through this JV," Robert A. Iger, chief executive of The Walt Disney Co., said in the statement.

The merger of Viacom18 and Star India offers a unique opportunity to reorient the industry to better serve diverse cohorts of consumers across the country. Uday Shankar, co-founder of Bodhi Tree Systems, said, "By joining forces with RIL, we are able to expand our presence in this important media market and deliver viewers an even more robust portfolio of entertainment, sports content, and digital services," Shankar added.

The combined might of Reliance and Disney could set competition up at a disadvantage as far as bargaining power for TV advertisement rates goes, considering that the new entity would have the biggest pie of the market at 40-45%, according to experts. The deal will give RIL access to Disney's massive libraries in English language, including its Marvel catalogue.

[lata.j@hllive.com](mailto:lata.j@hllive.com)

## 'Revised norms will benefit big auditors'

Gireesh Chandra Prasad  
gireesh.p@livemint.com  
NEW DELHI

**P**roposed revisions in the audit standard for consolidated financial statements of business groups could lead to the concentration of the audit market around big audit firms at the expense of other auditors, said an official of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the profession's self-regulator and rule maker.

A senior ICAI official said the existing standard framed by it, SA600, has served well for the last 22 years and a few corporate scandals cited in a public feedback note for a proposed revision are aberrations, and must not be a basis for change. Audit concentration refers to a big chunk of the audit market going to top firms, a trend seen in the US and the UK.

National Financial Reporting Authority's (NFRA) has decided to propose notification of 40 revised audit standards issued by ICAI, in spite of objections from the account-



The existing standard has served well for the past 22 years and scandals are aberrations, a senior ICAI official said. ISTOCKPHOTO

ants' body to the revisions to two of these—SA600 dealing with group financial statements and SA299 that deals with joint audits. Joint audits are done for public sector companies, state-run banks and large listed companies.

NFRA recommended the implementation of revisions to the government from 1 April 2026, the ministry of corporate affairs said in a statement.

NFRA wants the lead auditor to be responsible for the consolidated financial statements even if subsidiaries are

audited by others in order to improve accountability of auditors and to prevent instances of promoters siphoning off company funds.

Some in the audit and professional services industry supported NFRA's proposals.

"SA600 will enhance reliability of financial statements by getting the principal auditor to take more responsibility, whoever that firm is big or small," said Vishesh C. Chandio, CEO, Grant Thornton Bharat.

The current norm on joint audits issued by ICAI says that

work will be divided and individual auditors will be responsible for their respective work. Where there is joint work, they will be jointly responsible.

The revised standard recommended by NFRA to government suggests that each of the joint auditors will be responsible for the full work.

"This will lead to duplication of work and cost," said the ICAI official.

"In the case of SA600, our view is that the principal auditor (who audits the holding company) should not be responsible for the component auditor (who audits the subsidiary) even if the former can ask questions about the latter's work," said the official.

"Companies Act allows subsidiaries to be audited by any auditor. By making the principal auditor responsible for the subsidiary's audit, the most valuable companies in the country will be audited by top audit firms. We want a level-playing field, and all auditors should be equal. ICAI's mandate includes both regulation and development of the profession," he added.

## CCPA orders investigation into Ola Electric

Dhirendra Kumar  
dhirendra.kumar@livemint.com  
NEW DELHI

**S**ignalling mounting trouble for Ola Electric, the Central Consumer Protection Authority (CCPA) has ordered a detailed probe into alleged "deficiencies" in the company's services and products, specifically regarding its scooters. This move follows Ola's response to earlier regulatory notices on unresolved customer grievances.

The top consumer rights regulator has directed the Bureau of Indian Standards (BIS) to verify the company's

claims regarding its resolution of customer grievances, consumer affairs secretary Nidhi Khare said on Thursday.

The BIS director general,

who is the *ex-officio* director general of investigation, has been instructed to submit a report within 15 days, with the inquiry initiated on 6 November. Ola Electric did not immediately respond to requests for comment on Thursday.

The investigation was trig-

gered by a surge in complaints —10,644—against Ola Electric with the National Consumer Helpline (NCH) from September 2023 to August 2024.

Ola Electric, in a response dated 21 October, claimed that 99.1% of customers reported satisfaction with its complaint resolution process. The CCPA had then reached out to a sample of consumers to seek their feedback on grievance redressal.

"Of 287 consumers, the

NCH call agents called, 130 consumers were connected, and of which (79.2%) 103 were not satisfied with the company's response," said an official, requesting anonymity. "It was just a sample testing to verify the claims of Ola. If they are claiming 99% satisfaction, it should have also reflected in the cross-verification."

Many customers reported that issues persisted even after complaints were addressed, with some cases being closed prematurely without a satisfactory result, the official added.

For an extended version of this story, go to [livemint.com](https://www.livemint.com)

<b>VIJAY SOLVEX LIMITED</b> Corporate Identity Number: L15142RJ1987PLC004232 Regd. Office : Bhagwati Sadan, Swami Dayanand Marg, Alwar - 301001 (Raj.) Phone No. 0144-2332358, Fax No. 0144-2332320 website: www.vijaysolvex.com, email id: cs_locha@dataoils.com				
EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2024				
(Rs. in Lacs)				
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Corresponding Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)
1	Revenue from operations	43182.42	81011.77	47575.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	574.76	704.43	31.14
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	584.67	810.87	38.42
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates	622.45	815.21	25.04
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax))	50.20	1461.36	-443.12
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	320.13	320.13	320.13
7	Other equity excluding Revaluation Reserve (As per Audited Balance Sheet as at 31st March, 2024)	-	31,788.41	-
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualised) (in Rs.)			
	a) Basic :	19.44	25.46	0.78
	b) Diluted :	19.44	25.46	0.78
<b>Notes:</b> 1. Additional information on Unaudited Standalone financial results is as follows:- (Rs. in Lacs)				
Particulars	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Corresponding Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	
Revenue from operations	43182.42	81011.77	47575.54	
Profit Before tax	574.76	704.43	31.14	
Profit after tax	612.54	708.77	17.76	
2. The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 14-11-2024. 3. The results have been prepared in accordance with the Companies ( Indian Accounting Standards ) Rules, 2015 ( Ind AS ) ( as amended time to time ) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. 4. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI ( Listing Obligations and Disclosure Requirements ) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange website ( www.bseindia.com ) and Company's website ( www.vijaysolvex.com ).				
For & on behalf of the Board <b>Vijay Solvex Limited</b> sd/- <b>(VIJAY DATA)</b> Managing Director DIN : 00286492				
Place : ALWAR Dated : 14.11. 2024				

<b>INDAG RUBBER LIMITED</b> CIN : L74899DL1978PLC009038 Regd. Office: 11, Community Centre, Saket, New Delhi-110017 E-mail: - info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com; Phone: 011-26963172-73													
Extract of statement of audited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2024													
(Rs in lacs)													
S. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		For the quarter ended (30/09/2024) (Audited)	For the quarter ended (30/06/2024) (Unaudited)	For the quarter ended (30/09/2023) (Audited)	For the half year ended (30/09/2024) (Audited)	For the half year ended (30/09/2023) (Audited)	For the year ended (31/03/2024) (Audited)	For the quarter ended (30/09/2024) (Audited)	For the quarter ended (30/06/2024) (Unaudited)	For the quarter ended (30/09/2023) (Audited)	For the half year ended (30/09/2024) (Audited)	For the half year ended (30/09/2023) (Audited)	For the year ended (31/03/2024) (Audited)
1	Total income from operations	6,098.43	5,552.90	6,416.89	11,651.33	13,271.17	25,118.46	6,208.91	5,557.38	6,416.89	11,766.29	13,254.19	25,118.46
2	Net Profit/(loss) before tax and exceptional item	475.48	262.20	622.58	737.68	1,232.64	2,183.46	370.28	140.22	558.11	510.49	1,168.17	2,044.74
3	Net Profit/(loss) after exceptional item and before tax	475.48	262.20	622.58	737.68	1,232.64	2,183.46	370.28	140.22	558.11	510.49	1,168.17	2,044.74
4	Net Profit/(loss) after tax	397.33	199.69	498.46	597.02	973.10	1,674.90	310.30	97.86	433.99	408.15	908.63	1,558.32
5	Total Comprehensive Income [Comprising Profit/(loss) (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	590.54	438.85	561.21	1,029.41	1,202.04	2,131.64	503.51	337.03	496.74	840.53	1,137.57	2,015.06
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 2/- each)	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
7	Other Equity	22,636.07		21,464.56	22,636.07	21,464.56	22,157.91	22,480.31		21,431.69	22,480.31	21,431.69	22,098.45
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised)												
	- Basic (in Rupees)	1.51	0.76	1.90	2.27	3.71	6.38	1.34	0.56	1.77	1.91	3.58	6.15
	- Diluted (in Rupees)	1.51	0.76	1.90	2.27	3.71	6.38	1.34	0.56	1.77	1.91	3.58	6.15
<b>Notes :-</b> 1. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee on 14th November, 2024 and approved by the Board of Directors in the meeting held on 14th November, 2024. 2. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the half year and quarter ended 30th September, 2024, filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI ( Listing Obligations and Disclosure Requirements ) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the half year and quarter ended 30th September, 2024 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and Company's website www.indagrubber.com.													
Place : Bali Dated : 14th November, 2024													
For Indag Rubber Limited sd/- (CEO & Whole-Time Director)													

Immerse in  
**Mint Long Story**

The art of storytelling

Read only on **mint**





## MGM REALTORS PRIVATE LIMITED

REGD. OFFICE : 108, 1st Floor, Madangir Village, New Delhi - 110062  
CIN: U45200DL2008PTC181473 Email Id.: mgmrealtor12@gmail.comEXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2024  
Amount in lacs Rs.

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024 (Un-Audited)	30.06.2024 (Un-Audited)	30.09.2023 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	30.09.2023 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from operation	-	-	1.78	-	6.06	6.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(64.23)	(63.27)	(52.88)	(127.50)	(107.56)	(238.50)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(64.23)	(63.27)	(52.88)	(127.50)	(107.56)	(238.50)
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(64.23)	(63.27)	(52.88)	(127.50)	(107.56)	(238.50)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(64.23)	(63.27)	(52.88)	(127.50)	(107.56)	(238.50)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	277.90	277.90	277.90	277.90	277.90	277.90
7	Other equity excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	-10,572.75	-10,508.52	-10,314.31	-10,572.75	-10,314.31	(10,445.25)
8	Net worth	(10,294.85)	(10,230.62)	(10,036.41)	(10,294.85)	(10,036.41)	(10,167.35)
9	Paid up Debt Capital	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
10	Debt Equity Ratio	14.56	14.06	13.90	14.56	13.90	13.60
11	EPS(of Rs 10/- each) basic & diluted	(2.31)	(2.28)	(1.90)	(4.59)	(1.90)	(8.58)
12	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
13	Debt Service Coverage Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA

## Notes:-

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors in their meeting held on Nov 14th, 2024 and approved by Board of Directors in their meeting held on Nov 14th, 2024.
- The above is an extract of the detailed unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full formats of the same are also available on the website of the Company and the website of BSE.

For MGM REALTORS PRIVATE LIMITED

Sehar Shamim

Director

DIN:09503621

Date: 14-11-2024

Place: New Delhi

## कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बीजी-223, संजय गंधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीडी करनाल रोड, नई दिल्ली-110042

ई-मेल: kalyanicommercialsltd@gmail.com; वेबसाइट: www.kalyanicommercialsltd.com; ; दूरभाष: 011-43063223, 011-47060223; CIN:U45300DL1985PLC021453

## 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के समेकित अनअडिटेड वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वार्षिक
		30/09/2024 (अन-अडिटेड)	30/06/2024 (अडिटेड)	30/09/2023 (अन-अडिटेड)	
1	परिचालन से कुल आय	8974.85	5794.43	7638.91	27923.16
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विधि एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	100.06	82.71	70.72	327.10
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विधि एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	100.06	82.71	70.72	327.10
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विधि एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	73.63	61.71	48.61	236.33
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए 'मिल लाम/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)']	73.63	61.71	48.61	220.34
6	बुकता शेयर पूंजी [सममूल्य रु. 10/-]	100.00	100.00	100.00	100.00
7	अन्य इक्वीटी	-	-	-	-
8	प्रति शेयर आय [सममूल्य रु. 10/- प्रति शेयर] (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए):				
	मूल:	7.36	6.17	4.86	23.63
	तरल:	7.36	6.17	4.86	23.63

## टिप्पणियाँ:

- कम्पनी ने लेखा मानक (एएस-17) के अनुसार खण्डवार रिपोर्टिंग की है। कम्पनी ने निम्न व्यवसायिक खण्डवार रिपोर्टिंग की है:
  - आटोमोबाइल
  - अन्य
- ये वित्तीय परिणाम कम्पनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के अन्तर्गत कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित साथ में पठित उसके अन्तर्गत बनाये गये प्रसंगिक नियमों के अनुसार तैयार किये गये हैं।
- उपरोक्त परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की 13 नवंबर, 2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये। कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने उसके लिए सौमित्र समीक्षा रिपोर्ट प्रदान की है।
- पिछली अवधि के आकड़े वर्तमान अवधि के आकड़ों की पुष्टि के लिए जहाँ पर आवश्यक हो, समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया था।
- कम्पनी पर भारतीय लेखा मानक लागू है।

बोर्ड की ओर से

कृते कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड

हस्ता/—

सौरभ अग्रवाल

(पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ)

DIN: 02168346

तिथि : 15 नवंबर, 2024

स्थान : नई दिल्ली

M/s AJ FOODS PRIVATE LIMITED  
Corporate Office: H - 135, Site -5, Kasna Ind. Area, Greater Noida.  
Gautam Budh Nagar - 201310 Uttar Pradesh  
E-mail: aniljain\_af@gtmail.com  
CIN - U15122DL2009PTC194318  
FORM NO. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014]

Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Central Government Northern Region Bench, Delhi

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND

In the matter of M/S AJ FOODS PRIVATE LIMITED having its Registered Office at 16, Bahubali Enclave, I.P. Extn. - II, Delhi - 110092

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on SATURDAY, 2ND DAY OF NOVEMBER 2024 to enable the company to change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

ADDRESS OF REGISTERED OFFICE: 16, Bahubali Enclave, I.P. Extn. - II, Delhi - 110092 (Present Address)

For and on behalf of applicant

For AJ Foods Private Limited

Swati Jain

(Director)

DIN: 02737357

Place: New Delhi Date: 02.11.2024

## श्याम टेलीकॉम लिमिटेड

सीआईएन: L32202RJ1992PLC017750  
राजस्थान, भारत  
निगम कार्यालय ए - 60, नारायण औद्योगिक क्षेत्र, फेज - 1, नई दिल्ली - 110028  
फोन: 91-11-4025631 एवं 91-11-41411071972, फैक्स: 91-11-25792194  
वेबसाइट: www.shyamtelecom.com, ईमेल: shyamtelecom.cs@gmail.com

## डाक मतपत्र नोटिस

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22 के साथ पठित, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के साथ पठित, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 26 दिसंबर, 2022, 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और अन्य प्रासंगिक परिपत्र, जिनमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या है। कोमिस्ट मालिकों के मंत्रालय द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 का परिपत्र संख्या 09/2024 और सेबी द्वारा जारी 3 अक्टूबर, 2024 का परिपत्र SEBI/HO/CFD/FPD-POD-2/P/DIR/2024/133 (जिसे सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा जाएगा), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक ("एएस-2") और कोई अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं और समय-समय पर संशोधित किए गए हैं), कंपनी ने दिनांक 11 नवंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विवरण ("सूचना") के साथ डाक मतपत्र की सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है। गुरुवार, 14 नवंबर, 2024 को नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय को पूरा करने के लिए कंपनी के सदस्यों की मजूरी प्राप्त करने के लिए, केवल दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से उक्त प्रस्ताव पारित करेंगे।

कंपनी ने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति या असहमति केवल दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से ही दें। दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए गए हैं।

परिपत्रों के अनुपालन में, यह डाक मतपत्र नोटिस और ई-वोटिंग के निर्देश केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जिनके नाम राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा बनाया गए सदस्यों के रजिस्टर/लोकाली मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और जिनका ईमेल पता कंपनी के आरटीए (ईडस शेयरश्री प्राइवेट लिमिटेड)/डिपॉजिटरी प्रिमाग्री(ओ) के साथ जुड़ा है, 8 नवंबर, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") तक पंजीकृत है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, डाक मतपत्र के भौतिक नोटिस को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ भौतिक रूप में भेजने की आवश्यकता को 30 सितंबर 2024 तक समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, नोटिस की भौतिक प्रतियां कंपनी को किसी भी सदस्य को नहीं भेजी गई हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 8 नवंबर, 2024 तक सदस्य नहीं है, उसे इस डाक मतपत्र नोटिस को केवल सूचनात्मक प्रयोजन के लिए लेना चाहिए।

इसके अलावा, उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट [www.shyamtelecom.com](http://www.shyamtelecom.com) और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर और एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई-वोटिंग की शुरुआत गुरुवार, 15 नवंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)

ई-वोटिंग की समाप्ति शनिवार, 14 दिसंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी)

मतदान के अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 8 नवंबर, 2024 को सदस्यों (ओ) के नाम पर पंजीकृत शेयरों के बुकला मूल्य पर भी की जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे शनिवार, 14 दिसंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति (के लिए) या असहमति (विच्छेद) दर्ज कराएं। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार जब कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर अपना वोट डाल देता है, तो इसे अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। वोट डालने के बाद वोटों में कोई बदलाव या निरसन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कंपनी ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए, रजिस्ट्रार जनरल के रूप में कार्य करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मेसर्स सीनिया गुप्ता एंड एसोसिएट्स (फर्सीस) 7493 और ऑफिस नं. 8136 को नियुक्त किया है। रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के साथ डाक मतपत्र द्वारा ई-वोटिंग का परिणाम रिपोर्ट ई-वोटिंग के समापन से दो (2) कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा, यानी, मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024 को या उसके पहले कंपनी द्वारा और कंपनी की वेबसाइट [www.shyamtelecom.com](http://www.shyamtelecom.com) पर, एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगा, और उक्त परिणाम रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंज(ओ) यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर सूचित किया जाएगा।

ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका

(क) भौतिक रूप में रजि गे शेयरर कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रिमाग्री द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रिमाग्री से संपर्क करें।

(ख) डीमेट मोड में रजि गे शेयरर कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रिमाग्री द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रिमाग्री से संपर्क करें।

उपरोक्त सत्यापन के बाद, कंपनी उनके पंजीकृत ईमेल पता पर सौमित्र क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंतिम करेगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाक मतपत्र नोटिस में दिए गए सभी नोटों/निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के निर्देश भी शामिल हैं।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य कंपनी से फोन नंबर 011-41411071972 पर संपर्क कर सकते हैं या [shyamtelecom.cs@gmail.com](mailto:shyamtelecom.cs@gmail.com) पर ईमेल कर सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, इंडस शेयरश्री प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आईडी [shankar.k@indusinvest.com](mailto:shankar.k@indusinvest.com) / [rs.kushwaha@indusinvest.com](mailto:rs.kushwaha@indusinvest.com) पर संपर्क कर सकते हैं या 011-47671217/14 पर कॉल कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड के लिए

हस्ता/—

अजय खन्ना

प्रबंध निदेशक

DIN: 00027549

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 14 नवंबर, 2024

क्र. सं.	विवरण	रट्टेड बलोन						समेकित					
		वास्तव तिमाही (30.09.2024) (लेखापरीक्षित)	वास्तव तिमाही (30.06.2024) (अलेखापरीक्षित)	वास्तव तिमाही (30.09.2023) (लेखापरीक्षित)	वास्तव छमाही (30.09.2024) (लेखापरीक्षित)	वास्तव छमाही (30.09.2023) (लेखापरीक्षित)	वास्तव वर्ष (31.03.2024) (लेखापरीक्षित)	वास्तव तिमाही (30.09.2024) (अलेखापरीक्षित)	वास्तव तिमाही (30.09.2023) (लेखापरीक्षित)	वास्तव छमाही (30.09.2024) (लेखापरीक्षित)	वास्तव छमाही (30.09.2023) (लेखापरीक्षित)	वास्तव वर्ष (31.03.2024) (लेखापरीक्षित)	
1	संचालन से कुल आय	6,098.43	5,552.90	6,416.89	11,651.33	13,271.17	25,118.46	6,208.91	5,557.38	6,416.89	11,766.29	13,254.19	25,118.46
2	कर और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	475.48	262.20	622.58	737.68	1,232.64	2,183.46	370.28	140.22	558.11	510.49	1,168.17	2,044.74
3	असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	475.48	262.20	622.58	737.68	1,232.64	2,183.46	370.28	140.22	558.11	510.49	1,168.17	2,044.74
4	कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	397.33	199.69	498.46	597.02	973.10	1,674.90	310.30	97.86	433.99	408.15	908.63	1,558.32
5	कुल व्यापक आय [ जिसमें लाभ / (हानि) (कर परचात) और अन्य व्यापक आय (कर परचात) शामिल हैं ]	590.54	438.85	561.21	1,029.41	1,202.04	2,131.64	503.51	337.03	496.74	840.53	1,137.57	2,015.06
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 2/- प्रति शेयर)	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
7	अन्य इक्विटी शेयर	22,636.07	21,464.56	22,636.07	21,464.56	22,157.91	22,480.31	21,431.69	22,480.31	21,431.69	22,480.31	21,431.69	22,098.45
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 2/- प्रत्येक रु.) (वार्षिककृत नहीं)	1.51	0.76	1.90	2.27	3.71	6.38	1.34	0.56	1.77	1.91	3.58	6.15
	- मूल (रु. में)	1.51	0.76	1.90	2.27	3.71	6.38	1.34	0.56	1.77	1.91	3.58	6.15
	- तनुपूल (रु. में)	1.51	0.76	1.90	2.27	3.71	6.38	1.34	0.56	1.77	1.91	3.58	6.15

## टिप्पणियाँ:-

- उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की 14 नवंबर, 2024 को लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई तथा 14 नवंबर, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- उपरोक्त 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही और तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राकृतिक और अंक अंश हैं, जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज(ओ) में दाखिल किया गया है। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही और तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्राकृतिक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट [www.indagrubber.com](http://www.indagrubber.com) पर उपलब्ध है।

स्थान : बाली

दिनांक : 14 नवंबर, 2024

इंडैग रबर लिमिटेड के लिए

हस्ता/—

(सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक)

## NUPUR RECYCLERS LIMITED

Formerly known as NUPUR RECYCLERS PRIVATE